

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 5582

L

Unique Paper Code : 2274000024

Name of the Paper : Principles of Macroeconomics-2

Name of the Course : **Common pool of GE**

Semester : IV / VI / VIII

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

समय : 3 घण्टे

पूर्णांक : 90

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt **all** questions.
2. **All** questions have internal choice
3. A simple calculator is allowed.
4. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. **सभी** प्रश्नों का उत्तर दें।
3. **सभी** प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं।
4. साधारण कैलकुलेटर का उपयोग अनुमत है।
5. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

P.T.O.

1. (a) Explain the derivation of the IS curve. What factors cause shifts in the IS curve? (12.5)

IS वक्र का व्युत्पादन कीजिए। इसके स्थानांतरण के कारणों को समझाइए।

- (b) Explain how the slope of the LM curve is determined. What factors influence it? (12.5)

LM वक्र का ढाल किन कारकों से निर्धारित होता है, समझाइए।

OR / अथवा

- (a) Using the IS–LM framework, explain the effect of an increase in transfers (TR) on output and interest rate. (12.5)

IS–LM मॉडल द्वारा हस्तांतरण (TR) में वृद्धि का उत्पादन और ब्याज दर पर प्रभाव समझाइए।

- (b) Explain the working of fiscal policy versus monetary policy in the IS–LM model. (12.5)

IS-LM मॉडल में राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) बनाम मौद्रिक नीति (Monetary Policy) की कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए।

2. (a) Explain the effect of an increase in expected inflation on output and price level in the short run. (12.5)

अपेक्षित मुद्रास्फीति में वृद्धि का अल्पकाल में उत्पादन और मूल्य स्तर पर प्रभाव समझाइए।

- (b) Explain how mark-up pricing by firms affects real wages and unemployment. (12.5)

फर्मों द्वारा मार्क-अप मूल्य निर्धारण का वास्तविक मजदूरी और बेरोजगारी पर प्रभाव समझाइए।

OR / अथवा

- (a) Explain the effect of a reduction in government spending on output and price level using AD-AS. (12.5)

AD-AS मॉडल द्वारा सरकारी व्यय में कमी का उत्पादन और मूल्य स्तर पर प्रभाव समझाइए।

- (b) Explain the adjustment process after a supply shock. (12.5)

आपूर्ति के झटके (supply shock) के बाद समायोजन की प्रक्रिया (adjustment process) की व्याख्या कीजिए।

3. (a) Explain the concept of the expectations-augmented Phillips Curve. How does it modify the traditional Phillips Curve? (12.5)

अपेक्षाओं-संवर्धित फिलिप्स वक्र (Expectations-Augmented Phillips Curve) की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। यह पारंपरिक फिलिप्स वक्र में किस प्रकार संशोधन करता है?

- (b) Explain the expectations-augmented Phillips curve. (12.5)

प्रत्याशा-प्रवर्धित फिलिप्स वक्र (Expectations-Augmented Phillips Curve) की व्याख्या कीजिए।

OR / अथवा

- (a) Explain the short-run and long-run Phillips Curve. (12.5)

अल्पकालीन और दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र समझाइए।

- (b) Explain how changes in expected inflation shift the Phillips Curve. (12.5)

अपेक्षित मुद्रास्फीति में परिवर्तन से फिलिप्स वक्र कैसे स्थानांतरित होता है, समझाइए।

4. Explain the determinants of net exports (NX). How do changes in domestic income, foreign income, and real exchange rate affect NX? (15)

शुद्ध निर्यात (NX) के निर्धारकों को समझाइए। घरेलू आय, विदेशी आय और वास्तविक विनिमय दर में परिवर्तन का NX पर क्या प्रभाव पड़ता है?

OR / अथवा

Explain the effect of a real exchange rate appreciation on output, imports, and exports. (15)

वास्तविक विनिमय दर में वृद्धि (appreciation) का उत्पादन, आयात और निर्यात पर प्रभाव समझाइए।